



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1941 (श0)
(सं0 पटना 200) पटना, सोमवार, 9 मार्च 2020

वित्त विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी 2020

सं०-एम-4-05/2017(खंड)--1526/वि०-वित्त विभागीय अधिसूचना सं० 739 दिनांक 28.1.2020 द्वारा मो० इम्तियाज अहमद करीमी, उप सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को अपने कार्य के अतिरिक्त संसदीय कार्य विभाग का भी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है।

मो० इम्तियाज अहमद करीमी को बिहार विधान मंडल के सदस्यों/पूर्व सदस्यों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्रों की जांच एवं उसपर सहमति देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 200-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>